


KURUKSHETRA UNIVERSITY TECHNOLOGY INCUBATION CENTRE (KUTIC)



ACTIVITY REPORT 1st January 2022 to 31st Dec 2022

CONTENTS

01



OUTREACH PROGRAMS

(Pages. 3-5)

02



STARTUP INDUCTION

(Pages 6-7)

03



INVITED TALKS

(Pages 8-10)

04



STARTUP EVALUATION

(Pages 11-14)

05



EVENTS ATTENDED

(Pages 15-17)

06



MENTORING SESSIONS

(Pages 18-20)

07



ANNOUNCEMENTS and NOTEWORTHY ACHIEVEMENTS

(Pages 21-24)

OUTREACH PROGRAMS

Invited Talk in Central University Haryana, Mahenderagarh, on “Journey from Invention to Innovation”



On 12th March 2022, Prof. Anurekha Sharma, Co-ordinator, KUTIC and Mr. Manoj Sharma, Incubation Consultant, KUTIC delivered a talk on "Journey from Invention to Innovation". Prof. Anurekha Sharma explained about the difference between invention and innovation ,through a lot of illustrations. She also apprised the audience about ingredients of innovation , different types of innovation , and need for innovations. Mr. Manoj told about the activities of KUTIC and also discussed about setting up of the incubation centre. About 170 students attended the talk.

राष्ट्र की प्रगति में नवाचार का विशेष महत्व : टंकेश्वर

संवाद: राकेश्वरी, मॉडरेटर : राष्ट्र की प्रगति में नवाचार अपना विशेष महत्व रखता है। जिस देश के नागरिक जिाने नवाच नवाचार के प्रति प्रयासदा खत है, वहाँ आभनिर्भरता, स्वयं रोजगार व रोजगार के प्रो.टंकेश्वर कुमार * अक्सर उतने ही अधिक बेहतर विकसित होते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही शोध व नवाचार पर बल दिया जाता रहा है। जिसके फलस्वरूप भारत ने विश्व का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्वमुरु का दर्जा हासिल किया। वर्तमान में कोरोना महामारी में जहाँ एक तरफ पूरा विश्व महामारी के प्रकोप से जुझ रहा था, वहाँ उस मुश्किल समय में महामारी से बचाव के साधन-साधन भारत ने इससे बचाव के लिए वैक्सिन भी विकसित करने का सफलता अभिमान दिखा। आज भारत



हदेषी में आयोजित कार्यक्रम में मुद्रा वसत को स्मृति चिह्न टंकेश्वर सम्मानित करती प्रो. सुचीता श्रीवास्तव * सी. हठोती

को इस उपलब्धि से करोड़ों लोगों का जीवन बचाने के साथ-साथ इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम् यानि सेपूर्ण धरा ही अपना परिवार है और परिवार की समृद्धि के लिए नवाचार करना भारतीय संस्कृति का नियम रहा है। यह विचार हरिकण केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने विश्वविद्यालय

स्वित्वा इन्वेंशन एवं इन्क्यूबेशन सेंटर द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'अविष्कार से नवाचार तक' में अपने संबोधन में व्यक्त किया। इस अवसर पर कुलपति विधि, कुलपति के नवाचार एवं उद्दिष्टिता केंद्र की संयोजिका प्रो. अनुरेखा शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम को मुख्य वक्ता प्रो. अनुरेखा शर्मा ने अपने वक्तव्य में अविष्कार और

नवाचार के महत्त्व पर विस्तार प्रकाश डाला। वर्तमान में जिस प्रकार भारत में रोजगार की उपलब्धता लेकर लगातार प्रयत्न जारी है उ दिखते हुए अब हमारे युवाओं उद्यमिता की तरफ लगे जाना अत आवश्यक है। प्रो. शर्मा ने स्टार्टअप के विषय पर भी प्रतिभाषियों से चर्चा की। कार्यक्रम में अन्य विशेषज्ञ टंकेश्वर ने भी नवाचार की महत्ता प्रकाश डाला और प्रतिभागियों इसके लिए निरंतर प्रयास करने लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम एवं वि में इन्वेंशन एंड इन्क्यूबेशन केंद्र संयोजिका प्रो. सुनीता श्रीवास्तव मुख्य वक्ता की बातों को साध बताया। इसके लिए विधि व्याख्यान, शोध कार्यशालाएँ, विद्य प्रदर्शनी एवं विश्व विशेषज्ञ चर्चा का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इससे हमारे विद्यार्थी और शोध एसी तकनीक विकसित करें जिस देश में रोजगार के साधन विकसित और भारत आभनिर्भर बने।

12th March 2022

Outreach Program in Dyal Singh College, on Journey from Invention to Innovation on May 13th 2022

The Institution's Innovation Council of Dyal Singh College, Karnal, organised a program on the topic "Invention to Innovation" on 13th May, 2022. The keynote speakers of the event were Dr. Anurekha Sharma, Co-ordinator, KUTIC and Professor, Dept. of Electronic Science; and Mr. Manoj Sharma, Incubation Consultant, KUTIC.

Dr. Anurekha Sharma familiarised the students with the concepts of both of these terms and differentiated between them. The focus of her lecture was to encourage and motivate the students to be job creators. She also iterated the prerequisites of innovation and how innovation incubation centres provide for necessary resources to researchers and innovators.

The workshop was attended by over 70 students from various streams of the college. Address of Prof. Anurekha Sharma was followed by the talk of Mr Manoj . Sharma who laid down the framework of incubation center and their operation



STARTUP INCUBATION

STARTUP Induction on 18th August 2022



August 18th 2022

K'shetriversity to strengthen startup ecosystem

TRIBUNE NEWS SERVICE

KURUKSHETRA, AUGUST 21
The Kurukshetra University Technology Incubation Centre (KUTIC), a constituent of Kurukshetra University RUSA Project Society (KURPS), has signed an MoU with Livsmart Automation & Security LLP. Prof Som Nath Sachdeva, Vice Chancellor of Kurukshetra University, said there was a great demand for skill development and the MoU would prove to be a milestone for students not only in the technical field but also in the field of research. He said the incubation centre provided a startup ecosystem for young entrepreneurs. It has been established at the KU to encourage students to become self-reliant by becoming entrepreneurs, he said.

He said under the National Education Policy-2020, the main goal was to make youth employable and self-reliant by developing skills in them through education, research, innovation, entrepreneurship and startups.

KU Registrar Dr Sanjeev Sharma said through this agreement, activities like incubation and creation of an ecosystem for innovation would be encouraged.



कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उद्यमिता, स्टार्ट-अप और नवीन गतिविधियों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए गुरुवार को वीसी प्रो. सोमनाथ सचदेवा की अध्यक्षता में केयू के रूसा प्रोजेक्ट सोसाइटी के घटक केयू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर (केयूटीआईसी) द्वारा केयू सहित लिवस्मार्ट ऑटोमेशन एंड सिक्वोरिटी एलएलपी के साथ समझौता हुआ। प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि वर्तमान समय में कौशल विकास की बहुत मांग है तथा यह समझौता न केवल तकनीकी क्षेत्र अपितु शोध के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

Kurukshetra University Kurukshetra, LivSmart Automation & Security LLP and Kurukshetra University Technology Incubation Center (KUTIC) signed a tri-partite agreement on 18th August 2022 Professor Som Nath Sachdeva, The Vice-Chancellor, Kurukshetra University Kurukshetra, congratulated the inducted start-up and wished them for successful journey. The agreement was signed by The Registrar on behalf of KUK, and by Prof. Manjula Chaudhary, Nodal Officer RUSA and Dean Academic Affairs on behalf of KUPRS and by Mr. Parshant Sharma on behalf of LivSmart Automation and Security. Dr. Sanjeev Sharma, The Registrar & Prof. Manjula Chaudhary, Nodal officer RUSA congratulated the firm for getting incubated as the first on-campus start-up of the University. Founder and CEO of LivSmart Automation and Security LLP said that their start-up aims to provide an integrated solution for smart home as well as home security with lowest possible latency and user data privacy which is not provided by other companies in the market. Dr Anurekha Sharma, Cordinator-KUTIC said that this partnership will bring new opportunities for the students, other start-ups, faculties and people of university as well as of state and to their creativity and knowledge which will be known worldwide.

INVITED TALKS

Invited talk on Research Translation and Campus Startups by Dr. Anil Wali, MD FITT, IIT Delhi on 13th Sept 2022

Kurukshetra University Technology Incubation Center (KUTIC) organized an invited talk for Faculty members of Kurukshetra University on "Research translations and Campus Start-ups" by Dr. ANIL WALI Director FITT, IIT Delhi. In his talk Dr. Wali emphasized on the role of digitalization and disruption. He gave insights about the current status of R & D in India. During the event Chief guest Honorable Vice-Chancellor, Prof. Som Nath Sachdeva and Dean Academic Affairs, Prof. Manjula Chaudhary joined KUTIC as first and second Faculty mentors respectively.



15' x 12' (1 Pc.)

Kurukshetra University Technology Incubation Centre
presents
An Invited Talk
on
Research Translation and Campus Startups
by
Dr. Anil Wali, Managing Director FITT, IIT Delhi

Chief Guest
Prof. Som Nath Sachdeva
Vice-Chancellor
Kurukshetra University, Kurukshetra

Guest of Honour
Prof. Manjula Chaudhary
Dean Academic Affairs & Nodal Officer RUSA

13th Sept. 2022 | 10:00 AM | SENATE HALL, KUK

E-mail:kutic@kuk.ac.in www.kutic.rusakuk.in Ph.70821-13059

स्टार्टअप के लिए एक अच्छा और नया आइडिया होना जरूरी : कुलपति सचदेवा

कुवि टेक्नोलॉजी इंक््यूबेशन सेंटर की ओर से कैंपस स्टार्टअप विषय पर वार्ता आयोजित

जगमग संवाददाता, कुलपति : कुलपति विश्वविद्यालय में मंगलवार को टेक्नोलॉजी इंक््यूबेशन सेंटर को ओर से रिसर्च ट्रांसलेशन एंड कैंपस स्टार्टअप विषय पर वार्ता करवाई गई। कुवि के सीनेट हॉल में आयोजित इस वार्ता में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि स्टार्टअप के लिए एक अच्छा और नया आइडिया होना जरूरी है। स्टार्ट-अप कार्यक्रमों को शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय है। स्टार्टअप क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी के साथ अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है और समय के साथ नए उद्योग भी शुरू होते हैं। कुवि कुलपति प्रो. सोमनाथ ने कहा कि कुलपति विश्वविद्यालय शिक्षा एवं शोध, अनुसंधान के साथ स्टार्टअप, नवाचार एवं विद्यार्थियों में कोशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सकें। कुलपति प्रो. सोमनाथ ने कहा कि राटोरी शिक्षा



कुवि के सीनेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा और उपस्थित शिक्षक। ● लैलाखत : पी.अर.ओ

नीति-2020 हमें इसी के लिए प्रेरित करती है जिसमें रिकल डेवलपमेंट, इंटरशिप के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि भारत को चिकित्सा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी जैसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, इसके लिए स्टार्टअप बहुत जरूरी है जिसमें नवाचार, शोध एवं अनुसंधान को महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। डिजिटलीकरण व विद्युत अर्थव्यवस्था को प्रभावित करे है: मुख्य वक्ता एकअहट्टी, आइआईटी दिल्ली के मैनेजिंग डायरेक्टर डा. अमित वाली ने कहा कि डिजिटलीकरण और विपटन किसी भी अर्थव्यवस्था को बेहतर प्रभावित करते हैं। शोध कार्य के व्यवस्थीकरण के लिए छोटे कदम उठाने का यह सही समय है। नवाचार प्रक्रिया में सबसे अच्छे उपभोक्ताओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विवि के शिक्षाविद ज्ञान के पार हाउस है। इसे सही ढंग से चैनलाइज करने की आवश्यकता है। इस मौके पर डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. मंजूला चौधरी, प्रो. अनिल पटनवार, प्रो. पवन शर्मा, प्रो. अनिल पटनवार, प्रो. संजीव कुमार गुप्ता, प्रो. परमेश कुमार व डा. नरेश साववाल मौजूद रहे।

Invited talk on “Technology unlocking the w’s to facilitate digital transformation from businesses and governance” by Mr. Nikhil Kumar, President-Geospatial at MapmyIndia, Gurgaon on 13th Dec 2022

Invited talk on “Technology unlocking the w’s to facilitate digital transformation from businesses and governance” was organised by the Department of Geology and Electronics Science Department in collaboration with KUTIC, Kurukshetra University Kurukshetra for the students and research scholars of these departments. Total of 93 students in addition to the faculty members of both the departments participated in this event.

The speaker of the talk was Nikhil Kumar (President-Geospatial at MapmyIndia, Gurgaon). He talked about the innovation flow and the type of innovation required for geospatial mapping. He also emphasised on highly interdisciplinary approach of the domain Professor Anil Vohra, Dean of Colleges was the Chief Guest of this event.



Evaluation of Startup Proposals

KUTIC Advisory Board Meeting and Startup Evaluation on 30th Sept 2022



Advisory Board meeting of newly Inducted Board of KUTIC was held on 30-9-2022. Committee deliberated on the amendments and additions in policy, setting expectations for the inducted startup, setting the roadmap and many other critical issues pertaining to the operation of incubation centre.

After the meeting, proposal from Zenberry Digitals Private Limited was evaluated amidst very involving discussion .

EVALUATORS

Dr. Jitender Chhabra , Department of Computer Engg., NIT, Kurukshetra

Ms. Rajni Bhandari, Engineering Manager, Medtronic, Hyderabad,

Mr. Vineet Khurana, CEO, SACC INDIA Startup Accelerator Chamber of Commerce, Chandigarh

Mr. Sanjay Ahuja, Founder and CEO, CIONLABS Pvt. Ltd. Bengaluru

Mr. Gurdarshan Aggarwal, Deputy Resident Director at PHD Chamber of Commerce and Industry, Chandigarh

Sept 30th 2022



Kutic Advisory Board Meeting
Kurukshetra University, Ku
30/09/22 11:37
29.959455 ° 76.817529 °
Capture by Survey Cam
Kurukshetra University, Kurukshetra, 136118

Evaluation of Startups Proposal on 4th and 5th Nov 2022

EVALUATORS

Mr. Vishvender Singh Mor, Manager (Agriculture), Punjab National Bank, Kurukshetra

Mr. Kamal Jeet, Founder KISAN SANCHAR, Mohali Punjab

Prof. Saraswati Setia, Dept. of Civil Engineering, NIT, Kurukshetra

Mr. Gurdarshan Aggarwal, Deputy Resident Director at PHD Chamber of Commerce and Industry, Chandigarh

Mr. Gurdarshan Aggarwal, Deputy Resident Director at PHD Chamber of Commerce and Industry, Chandigarh

Dr. R.C. Anand, Former Professor and Scientist, CCSHAU Hisar, (Presently residing in Noida)

Dr. Sanjay Kumar, Co-founder Niyati Federation & Samagra Jeevan, Gautam Budha Nagar, UP

Mr. Karan Walia, Co-Founder & GM- Technical Co-Founder & GM- Technical Gasorex SR Energy Pvt Ltd, Delhi

Mr. Dalip Sharma, Secretary General, Punjab Chamber of Commerce and Industries, Chandigarh

Dr. Jaideep Gupta, Associate Prof., Dept. of Mech. Engg. NIT, Kurukshetra

Mr. Dhariyash Rathod, CEO, Smart Air India. New Delhi

Mr. Bhavish Sood, General Partner, Modular Capital, Chandigarh

Kurukshetra University Technology Incubation Center (KUTIC) evaluated three startup proposals on 4th and 5th Nov 2022. Two of the startups were from agriculture domain and one of the startup was from environmental domain. Evaluators recommended two of the startups to resubmit their proposal with modifications and one of the startup was rejected.

Nov 4th and 5th 2022



GPS Map Camera

Thanesar, Haryana, India

XR58+QXW, Kurukshetra University, Thanesar, Haryana 136119,

13

Evaluation of Startups Proposal on 23rd and 24th Dec 2022

Kurukshetra University Technology Incubation Center (KUTIC) evaluated proposal from Airiac Systems Private Limited on 23rd Dec 2022. The proposal was related to green energy . Mr. Amit Kumar founder of Airiac pitched the idea in front of evaluators on 23rd Dec 2022. On 24th Dec 2022, KUTIC evaluated a student based startup working on waste management. Mr. Shivam Aggarwal, a M-Tech. Student of Enviromental Science in Kurukshetra University Kurukshetra, pitched his idea and showcased his prototype in front of Evaluators.

EVALUATORS

Mr. Tejinder Jassal,
Director Dulcimer Innovations Private Limited, Chandigarh

Mr. Vishvender Singh Mor, Manager (Agriculture), Punjab National Bank, Kurukshetra

Prof. Rajiv Verma , Department of Mechanical Engg., NIT, Kurukshetra

Mr. Dalip Sharma, Secretary General, Punjab Chamber of Commerce and Industries, Chandigarh

Mr. Karan Walia, Co-Founder & GM- Technical Gasorex SR Energy Pvt Ltd, Delhi

EVALUATORS

Mrs. Preeti Bhardwaj, Manager, Punjab National Bank, Mirzapur, Kurukshetra

Mr. Dhariyash Rathod, CEO, Smart Air India. New Delhi

Prof. Rajesh Dhankar, Department of Environmental Sciences, M.D.University, Rohtak Pin-124001 (Haryana)

Mr. Dinesh Kumar, Assistant Director, MSME Kurukshetra

Mr. Jugdev Singh, Managing Director at EGS INDIA PVT LTD. Gurgaon



EVENTS ATTENDED

KUTIC team attended CANNABLE 4.0, an event organized by CAN, Chandigarh on 26th Nov 2022

 Mentorship Clinic Seasoned investors and enablers will mentor Founders. 9:00 to 10:00 AM	 Keynote Session Why & How to build startups that last 10:30 to 11:00 AM	 Panel Discussion Does funding guarantee success? 11:00 to 11:30 AM	 Keynote Session Leveraging Intuition to Fuel Passion in your Startup 11:30 AM to 12:00 PM
 Panel Discussion Both Sides of the Table 12:00 to 12:30 PM	 Panel Discussion Celebrating Local Success Stories 12:30 to 1:00 PM	 Networking Lunch Network with the relevant people from Startup community. 1:00 to 2:30 PM	 Fireside Chat Inside a Venture Capitalist's Mind 2:30 to 3:00 PM
 Startup Pitches Selected Investment ready Startups pitch to Investors. 3:00 to 4:00 PM <small>Apply for pitching after your local year 2022</small>	 Panel Discussion Celebrating Social Entrepreneurship 4:00 to 4:30 PM	 Closing Keynote The closing ceremony with keynote address. 4:30 to 5:00 PM	 Networking Tea Networking over high tea for building lasting connections for the future. 5:00 PM onwards

Kurukshetra University Technology Incubation Center (KUTIC) team attended the CANNABLE 4.0. It was a great opportunity to network and collaborate. CANNABLE4.0 brought together the entire startup family beyond cities and states at Chandigarh Angels Network's flagship event. KUTIC team attended various sessions such as Mentorship clinic, valuable panel discussions, intriguing live startup pitching, exclusive women pitching event and lots of networking over food, tea and coffee.

Nov 26th 2022



Incubation Consultant, KUTIC attended People's Festival of Innovations at IIC Delhi on 22nd Nov 2022

Mr. Manoj Sharma, Incubation Consultant, KUTIC attended the “People festival of Innovations” on 22nd Nov 2022 at IIC Delhi. Prof. Anil Gupta, founder Honeybee Network was one of the organisers of this festival. KUTIC also has MOU with GIAN (Grassroots Innovations Augmentation Network) and Manoj attended this festival on his invitation He attended the panel discussion on Grassroots Innovations for Society – A Sustainable and Scalable Model. In Panel discussion there was Dr. Sanjay Kumar, Division Director, CSIR - Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT); Shri Manoj Kumar, Co-Founder and CEO, Social Alpha; Dr. Sanjay Saxena, Executive Director and Public Information Officer; National Academy of Agricultural Sciences (NAAS); Dr. Mrutyunjay Suar, Director General R & D and Innovation, KIIT University; and Dr. Shipra, IIT-Delhi. After that there was a session on success stories of Innovators where various innovators across the country shared their innovations and struggles to solve the challenges.



MENTORING SESSIONS

Mentoring Session by Dr. Ripi Singh, Innovation Coach on 11th December 2022

KUTIC had a wonderful session with innovation coach Dr. Ripi Singh (Chief Innovation & Strategy Coach, Cromwell, CT USA) on Sunday 11th Dec 2022. He mentored the young incubated startup Livsmart Automation and Security LLP. He also mentored the student about their ideas, career aspects, internship opportunities.

Dr. Ripi Singh is a purposeful innovation coach with a lifetime of learning in technology, people, and process development.



Mentoring Session with CS Surya Kant Gupta on 22nd Dec 2022

KUTIC organised a legal mentoring session with CS Surya Gupta and his team members Paridhi and Archit Aggarwal on 22nd Dec 2022, who explained the nuances of startup policy, financial jargon. He also apprised the incubated startup, LivSmart Automation and Security about the compliance it has to follow.



ANNOUNCEMENTS

Call for STARTUP Proposal Announcement

KUTIC on 17th Dec 2022 made the announcement for call for startup proposal for a seed grant of upto Rs. 25 Lakhs.



Kurukshetra University Technology Incubation Centre
(under Kurukshetra University RUSA Project Society)

CALL FOR START-UP PROPOSALS



Kurukshetra University Technology Incubation Centre invites applications from Science and Technology. Startups and Individual Entrepreneurs with innovative ideas having the potential for commercialization. Eligible Entities include

- students, alumni, faculty, staff and research scholars of Kurukshetra University, other premier govt./public undertaking technological Institutes or some other technology promoting body
- technology Based Startups
- technologists/R & D unit office of a small or medium size enterprise, industry association and/ R & D company who desires to have a technology interface with KUK.

FOCUS AREAS

a) Agriculture and Allied Fields b) Bio Technology and other applied fields of Biology c) Electricity, New and Renewable Energy and Environmental sustainability d) Edu-tech e) Health and Pharmaceuticals f) Information & Communication Technology (ICT) g) Sensor Technology h) Micro and Nano electronics i) New Materials including Nano Materials j) Water, Sanitation and Solid Waste Management k) Food and nutrition l) Cyber Security m) Robotics and AI

**SEED GRANT
UPTO 25
LAKHS**

LAST DATE OF APPLICATION - 25TH January 2023

To know more about KUTIC and to apply

Please visit kutic.rusakuk.in

or SCAN



For more information :

+91-70821-13059

kutic@kuk.ac.in

KUTIC, Kurukshetra University,
Kurukshetra

NOTEWORTHY ACHIEVEMENTS

Kurukshetra University initiates in-house internship through its First Startup



Incubated at



Kurukshetra University
Technology Incubation
Centre



Kurukshetra University,
Kurukshetra

INTERNSHIP OPPORTUNITY

We are looking for fresh talent to join our team!

- Graphic Designer Intern ●
- Software Developer Intern ●

Register by 25th Nov 2022

- UG and PG students can apply.
- Internship period - 3 months starting from Dec 2022
- C, C++, Java, JavaScript, Python (At least one of mentioned languages for Software Developers)
- Stipend and Internship Certificates will be provided.
- An on-site internship. Working office at KUTIC Incubation Hall.
- Flexible Work Hours.

TALK TO US

+91 87086 54967
+91 88130 83500
info@thelivsmart.com

Grab professional skills along with studies

Scan the QR code to register



Kurukshetra University Technology Incubation Centre incubated its first students' technology startup 'LivSmart Automation and Security' on the campus on 22nd August 2022 in a ceremony in which Honorable Governor of Haryana, Shri Bandaru Dattatreya handed over a cheque of 25 Lakhs to the Livsmart Team. This startup is growing fast and shaping towards becoming a successful enterprise with the help and support provided by the University. In a matter of less than THREE months since incubation in Kurukshetra University Technology Incubation Centre (KUTIC), the startup has already created internship opportunities for the UG and PG students. Prof. Somnath Sachdeva, the Vice Chancellor has congratulated the entire team of LivSmart Automation and Security' for providing internship opportunities to the students of the University. Prof. Sachdeva said that University has created a good ecosystem for providing in-house employment opportunities to its students through the incubated startup. The startup circulated internship advertisement with help of KUTIC in various KUK departments for the post of 'Software Developer Intern (SDI) and Graphic Designer Intern (GDI)' on 20th November 2022. This is a 3-months paid internship starting from first week of December 2022. The skills desired for SDI were proficiency in any coding language and hands on prior projects in web and mobile development. For GDI, the skills on prior knowledge of software editing was required. Prashant, CEO and Head R& D, Livsmart Automation and Security, informed that a total of 141 students from various departments and affiliated colleges of the University applied for the advertised internship opportunities. 7 students were selected on the basis of their confidence levels, leadership skills, knowledge and projects handling experience.



शिक्षा स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं के रोजगार उपलब्ध करवाना केयू की प्राथमिकता : प्रो. सोमनाथ रोजगार दिलाने में केयू की अहम भूमिका

संवाद न्यूज एजेंसी

कुरुक्षेत्र। युवाओं को रोजगार दिलाने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के माध्यम से अपने छात्रों को इन-हाउस रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। स्टार्टअप ने 20 नवंबर 2022 को 'सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटरन' (एसडीआई) और ग्राफिक डिजाइनर इंटरन (जीडीआई) के पद के लिए कुटिक की मदद से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में इंटरनशिप विज्ञापन प्रसारित किया था।

केयू कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि विश्वविद्यालय ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के माध्यम से अपने छात्रों को इन-हाउस रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। स्टार्टअप ने 20 नवंबर 2022 को 'सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटरन' (एसडीआई) और ग्राफिक डिजाइनर इंटरन (जीडीआई) के पद के लिए कुटिक की मदद से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में इंटरनशिप विज्ञापन प्रसारित किया था।



केयू में इंटरनशिप के लिए चुने गए सात छात्र। संवाद

गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर ने 22 अगस्त 2022 को कैम्पस में छात्रों के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लिव स्मार्ट ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी को एक समारोह में इनक्यूबेट किया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल और केयू के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने लिवस्मार्ट टीम के लिए 25 लाख का चेक सौंपा था जिसके बाद यह स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहा है और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की

जाने वाली सहायता और समर्थन से एक युवाओं को सफल उद्यम बनने की दिशा में सहायता प्रदान कर रहा है। केयू टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर में इनक्यूबेशन के तीन महीने से भी कम समय में, स्टार्टअप ने पहले ही यूजी और पीजी छात्रों के लिए इंटरनशिप के अवसर पैदा कर दिए हैं।

प्रशांत, सीईओ और हेड आरएंडडी, लिवस्मार्ट ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी ने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और संबद्ध कॉलेजों के कुल 141 छात्रों ने विज्ञापित इंटरनशिप के अवसरों के लिए आवेदन किया था जिनमें से 22 छात्रों को उनकी परीोजनाओं और कौशल के आधार पर आगे के मूल्यांकन के आधार पर चुना गया था जिसमें से 17 छात्रों ने माहाकाव्य में भाग लिया और अंत में सात छात्रों को उनके आत्मविश्वास के स्तर, नेतृत्व कौशल, ज्ञान और परियोजनाओं को सभालने के अनुभव के आधार पर चुना गया।



follow us on:



to know more:



www.kutic.rusakuk.in



kutic@kuk.ac.in



70821-13059